

परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय - 2, हैदराबाद

कक्षा - नवीं विषय - हिन्दी व्याकरण - अध्याय - 3. अर्थ के आधार पर वाक्य भेद

वाक्य परिवर्तन / रूपांतरण

एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को अन्य किसी अर्थ वाले वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य के विभिन्न अर्थों में रूपांतरण देखिए-

- विधानवाचक वाक्य - मनीषा दसवीं में पढ़ती है।
निषेधवाचक वाक्य - मनीषा दसवीं में नहीं पढ़ती है।
प्रश्नवाचक वाक्य - क्या मनीषा दसवीं में पढ़ती है?
आज्ञावाचक वाक्य - मनीषा ! तुम दसवीं में पढ़ो ।
विस्मयवाचक वाक्य - अरे, मनीषा दसवीं में पढ़ने लगी !
इच्छावाचक वाक्य - काश ! मनीषा दसवीं में पढ़ती।
संदेहवाचक वाक्य - मनीषा दसवीं में पढ़ती होगी।

अथवा

शायद मनीषा दसवीं में पढ़ती है।

संकेतवाचक वाक्य - यदि अनुमति मिले तो मनीषा दसवीं में पढ़े।

विधानवाचक वाक्य से आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तन

- विधानवाचक वाक्य - शीला रोज पढ़ने जाती है।
आज्ञावाचक वाक्य - शीला ! तुम रोज पढ़ने जाया करो।
- विधानवाचक वाक्य - रमेश को खेलने से रोका जाता है।
आज्ञा वाचक वाक्य - रमेश को खेलने से रोको।

विधानवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन

- विधानवाचक वाक्य - वह जी खोलकर दान देता है।
प्रश्नवाचक वाक्य - क्या वह जी खोलकर दान देता है ?
निषेधवाचक वाक्य - वह जी खोलकर दान नहीं देता है।
- विधानवाचक वाक्य - पुलिस को देखते ही चोर भाग गए।
प्रश्नवाचक वाक्य - क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए?
निषेधवाचक वाक्य - पुलिस को देखते ही चोर नहीं भागे।
- विधानवाचक वाक्य - राम स्कूल जाएगा।
प्रश्नवाचक वाक्य - क्या राम स्कूल जाएगा?
निषेधवाचक वाक्य - राम स्कूल नहीं जाएगा।

विधानवाचक वाक्य से विस्मयवाचक वाक्य में परिवर्तन

- विधानवाचक वाक्य - तुम आ गए हो।
विस्मयवाचक वाक्य - अरे, तुम आ गए हो !
विधानवाचक वाक्य - यह बहुत ही सुंदर दृश्य है।
विस्मयवाचक वाक्य - वाह ! कितना सुंदर दृश्य है।

इच्छावाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन

- इच्छावाचक वाक्य - संसार में सब सुखी हो जाएँ।
प्रश्नवाचक वाक्य - क्या संसार में सब सुखी हो जाएँ?
निषेधवाचक वाक्य - संसार में सभी सुखी न हों।

विस्मयवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन

- विस्मयवाचक वाक्य - वाह ! तुमने तो कमाल कर दिया।
प्रश्नवाचक वाक्य - तुमने कौन सा कमाल कर दिया ?
निषेधवाचक वाक्य - तुमने कोई कमाल नहीं किया।

प्रश्नवाचकवाक्य से विस्मयवाचक और निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन

- प्रश्नवाचक वाक्य - क्या वह इतना मूर्ख है ?
विस्मयवाचक वाक्य - बाप रे, वह तो बड़ा मूर्ख है !
निषेधवाचक वाक्य - वह इतना मूर्ख नहीं है।

प्रश्नवाचक वाक्य से विधानवाचक वाक्य में परिवर्तन

- प्रश्नवाचक वाक्य - गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना ?
विधानवाचक वाक्य - गांधी जी का नाम सबने सुना है।

निषेधवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन

- निषेधवाचक वाक्य - सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है।
प्रश्नवाचक वाक्य - क्या सुरेश ने यह पुस्तक पढ़ी है?
अथवा
- क्या सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है?

निषेधवाचक वाक्य से विधानवाचक वाक्य में परिवर्तन

- निषेधवाचक वाक्य - उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा।
विधानवाचक वाक्य - उसने सब उपाय छोड़ दिए।
